

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जून 2019 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

- i. कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने असम राइफल्स परीक्षा, 2018 में सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ और राइफलमैन (जीडी) में कांस्टेबल (जीडी) की लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 20.06.2019 को घोषित किया। आयोग द्वारा दिनांक 04.06.2019 से 13.06.2019 तक संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (टियर-1) भी आयोजित की गई।
 - ii. मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने विभिन्न अनुसूची क एवं ख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 08 मामलों (03 सीएमडी/एमडी और 05 कार्यात्मक निदेशक) में नियुक्तियों का अनुमोदन किया। इसके अतिरिक्त, विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की तरह (13) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालकों की तीन (03) नियुक्तियों, समय-पूर्व प्रत्यावर्तन के एक (01) प्रस्ताव, निजी सचिव की नियुक्ति संबंधी चौदह (14) प्रस्तावों, कार्यकाल विस्तार संबंधी छह (06) प्रस्तावों और कार्यकाल को कम करने संबंधी एक (01) प्रस्ताव का मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त, 2017 बैच के 169 आईएस अधिकारियों की सहायक सचिवों के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए गए।
 - iii. पीईएसबी, डीओपीटी ने अठारह (18) पदों (सीएमडी के लिए 07 (सात) पद और निदेशक के लिए 11 (ग्यारह) पद) के लिए विज्ञापन जारी किए।
 - iv. सीएसएसएस के 71 पीपीएस के कार्यनिष्पादन की एफआर 56(जे) के तहत समीक्षा की गई।
 - v. जून माह के दौरान आईएसटीएम में 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें 05 सीएसएस-सीटीपी और 01 सीएसएसएस-सीटीपी कार्यक्रम भी शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 460 थी।
 - vi. दिनांक 18.06.2019 के का.ज्ञा. सं. 12/1/2019-जेसीए-2 द्वारा वर्ष 2020 के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाए जाने वाले अवकाशों संबंधी आदेश जारी किया गया।
 - vii. दिनांक 11.06.2019 का.ज्ञा. सं. 24011/01/2016-स्था.(ख) द्वारा श्री राजीव श्रीवास्तव, आईओएफएस (1991) को सदस्य, कर्मचारी चयन आयोग नियुक्त किया गया।
 - viii. 1135 एसओ की अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचारार्थ जोन परिधि 14 जून, 2019 को जारी किया गया।
 - ix. केंद्र सरकार के सहायक सचिवों की प्रतिनियुक्ति संबंधी निबंधन एवं शर्तों को 19 जून, 2019 को अंतिम रूप दिया गया।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए:-
- क) भारत सरकार के तहत विभिन्न पदों में संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण दिनांक 20.06.2019 के का.ज्ञा.सं. 14028/1/2019-स्था.(एल) द्वारा जारी किए गए।
 - ख) दिनांक 10.06.2019 के का.ज्ञा.सं. 28035/2/2014-स्था.(क) के माध्यम से दिनांक 31.12.2003 के बाद नियुक्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के सेवकों के त्यागपत्र वापिस लेना।
 - ग) दिनांक 18.06.2019 के का.ज्ञा.सं. 11012/15/2016-स्था.ए-III द्वारा सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के तहत शास्ति लगाने पर वेतन का विनियमन करना।

- घ) केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 दिनांक 20.06.2019 के का.ज्ञा. सं. 31011/3/2018-स्था.ए-IV द्वारा हवाई जहाज से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार का दौरा करने के लिए यात्रा में रियायत देना।
- ड) प्रशासन का सुदृढीकरण दिनांक 20.06.2019 के का.ज्ञा. सं. 25013/3/2019-स्था.ए-IV द्वारा मूल नियम (एफआर) 56(जे)/(आई) तथा सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा करना।